



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 35]  
No. 35]

नई दिल्ली, बुधस्वतिवार, जनवरी 11, 2007/पौष 21, 1928  
NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 11, 2007/PAUSA 21, 1928

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 जनवरी, 2007

**का.आ. 36(अ).**—यतः मैसर्स रायल पाम्स (इंडिया) प्रां. लिमिटेड, मुम्बई, जो महाराष्ट्र राज्य का एक गैर-सरकारी संगठन है, ने महाराष्ट्र राज्य में 169, आरे मिल्क कॉलोनी, गोरेगाँव (पूर्व), मुम्बई में सूचना प्रौद्योगिकी और सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवाओं के लिए एक क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक जोन की स्थापना हेतु विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 (2005 का 28), जिसे एतदपश्चात् अधिनियम कहा गया है, की धारा 3 के अंतर्गत प्रस्ताव किया है;

और यतः केन्द्र सरकार इस बात से संतुष्ट है कि अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (8) के अंतर्गत अपेक्षाओं तथा अन्य संबंधित अपेक्षाओं को पूरा कर लिया गया है और उसने उक्त मिल्क कॉलोनी, गोरेगाँव (पूर्व) में सूचना प्रौद्योगिकी और सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवाओं के लिए उक्त क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक जोन के विकास, प्रचालन हेतु अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (10) के अंतर्गत 23 अक्टूबर, 2006 को अनुमोदन पत्र प्रदान कर दिया है;

अतः, अब, अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और विशेष आर्थिक जोन नियम, 2006 के नियम 8 के अनुसरण में केन्द्र सरकार एतद्वारा महाराष्ट्र राज्य में 169, आरे मिल्क कॉलोनी, गोरेगाँव (पूर्व), मुम्बई में निम्नलिखित क्षेत्र को एक विशेष आर्थिक जोन के रूप में अधिसूचित करती है जिसमें निम्नलिखित सर्वेक्षण संख्या और क्षेत्र शामिल है, अर्थात् :-

सर्वेक्षण संख्या — 169 (भाग)

क्षेत्र — 10.10 हैक्टेयर

[फा. 2/536/2006-एसईजैड]

अनिल मुकीम, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th January, 2007

**S.O. 36(E).**—Whereas M/s. Royal Palms (India) Private Limited of Mumbai, a Private Organisation of the State of Maharashtra, has proposed under Section 3 of the Special Economic Zones Act, 2005 (28 of 2005), hereinafter referred to as

the Act, to set up a sector specific Special Economic Zone for information technology and information technology enabled services at 169, Aarrey Milk Colony, Goregaon (East), Mumbai in the State of Maharashtra;

And whereas the Central Government is satisfied that requirements under Sub-section (8) of Section 3 of the Act, and other related requirements are fulfilled and it has granted letter of approval under Sub-section (10) of Section 3 of the Act for development, operation of the sector specific Special Economic Zone for information technology and information technology enabled services at the said Milk Colony, Goregaon (East) area on 23rd October, 2006;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 4 of the Act and in pursuance of rule 8 of the Special Economic Zones Rules, 2006, the Central Government hereby notifies the following area at 169, Aarrey Milk Colony, Goregaon (East), Mumbai in the State of Maharashtra, comprising of the survey number and the area given below, as a Special Economic Zone, namely :—

Survey Number - 169 (PT)

Area - 10.10 hectares

[F. 2/536/2006-SEZ]

ANIL MUKIM, Jt. Secy.